

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न मान्यता बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 19/02/2011 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया-

- |  |            |
|--|------------|
| 1- प्रो० विनय कुमार पाठक, कुलपति   | अध्यक्ष    |
| 2- प्रो० आबसार मुस्तफा खान, सदस्य योजना बोर्ड                            | सदस्य      |
| 3- डॉ० मुकुल त्रिवेदी, सदस्य, विद्या परिषद                               | सदस्य      |
| 4- प्रो० जे० के० जोशी, निदेशक, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उ०मु०वि०वि०    | सदस्य      |
| 5- प्रो० दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं आई०टी०, उ०मु०वि०वि० | सदस्य      |
| 6- प्रो० आर० सी० मिश्र, निदेशक/कुलसचिव, उ०मु०वि०वि०                      | सदस्य सचिव |

निम्न ने भी बैठक में भाग लिया -

- 1- श्री डी० के० सिंह, उप कुलसचिव, उ०मु०वि०वि०
- 2- श्री एम०सी० जोशी, सहायक कुलसचिव

प्रो० एन० पी० सिंह, प्रो० अजय रावत, प्रो० एच०पी० शुक्ल, प्रो० एच०सी०पोखरियाल एवं डॉ० एस० फारूक अन्यत्र व्यस्त होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके।

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति ने बैठक में भाग लेने हेतु सभी का आभार व्यक्त किया तथा समय-समय पर उनके द्वारा दिये गये सुझावों एवं सहयोग की सराहना की। तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची पर विचार विमर्श आरम्भ हुआ।

**प्रस्ताव संख्या- 2.01 मान्यता परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 10 मई, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु।**

मान्यता बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 10 मई, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**प्रस्ताव संख्या: 2.02 प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

प्रथम बैठक में पारित प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

**प्रस्ताव संख्या- 2.03 विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये जाने वाले अध्ययन केन्द्रों का स्वरूप।**

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कोलाबोरेटिव मॉड तथा मोबाइल अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा यह मत व्यक्त किया गया कि कोलाबोरेटिव मॉड तथा मोबाइल अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिये वही माप दण्ड एवं अन्य शर्तें बनाये रखी जाँय